

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्गा/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 29]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 18 जुलाई 2025—आषाढ़ 27, शक 1947

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

(नियम शाखा)

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 20 जून 2025

सेवाकाल के दौरान शासकीय सेवक की मृत्यु होने पर अनुकम्पा नियुक्ति बाबत जारी एकजाई पुनरीक्षित निर्देश, 2013 में संशोधन

क्रमांक RULE/112/2025-GAD-3.—सेवाकाल के दौरान दिवंगत शासकीय सेवक के आश्रित परिवार के सदस्य को अनुकम्पा नियुक्ति देने के संबंध में परिपत्र क्रमांक एफ 7-1/2012/1-3, दिनांक 14-06-2013 द्वारा एकजाई पुनरीक्षित निर्देश, 2013 जारी किया गया है एवं उसमें समय-समय पर आंशिक संशोधन हुए हैं.

2. राज्य शासन एतद्वारा इस विभाग के परिपत्र दिनांक 14-06-2013 के बिन्दु क्रमांक 13(3) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित करता है :—

“13 (3) नक्सली हिंसा में शहीद पुलिस सेवकों के प्रकरण में उनके परिवार के किसी भी पात्र सदस्य (महिला या पुरुष) को विकल्प के आधार पर पुलिस विभाग के अलावा, किसी अन्य विभाग में, राज्य के किसी भी जिला, संभाग में अनुकम्पा नियुक्ति दी जा सकेगी. ऐसे मामलों में इस निर्देश की कंडिका 15(7) व 15(10) के प्रावधान शिथिल रहेंगे.”

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रजत कुमार, सचिव.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 10 जून 2025

क्रमांक PLGMJ-2301/19/2025-GAD-1.—राज्य शासन एतद्वारा माननीय न्यायमूर्ति श्री पार्थ प्रीतम साहू, न्यायाधिपति, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर को दिनांक 03-02-2025 से दिनांक 18-03-2025 तक कुल (44 दिन) का पूर्ण वेतन भत्तों सहित लघुकृत अवकाश का लाभ लेने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. पी. नेताम, अवर सचिव.

गृह विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 5 जून 2025

क्रमांक ESTB-2035/180/2025/Home Section.—राज्य शासन एतद्वारा राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला जिसका मुख्यालय रायपुर है, के अंतर्गत रायगढ़ एवं कवर्धा (कबीरधाम) में क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला प्रारंभ करने की स्वीकृति प्रदान करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अभिषेक अग्रवाल, उप-सचिव.

वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 4 जून 2025

क्रमांक ESTB-102(1)/127/2025-IFS.—राज्य शासन एतद्वारा श्री आलोक कटियार, भा.व.से. (1993), प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कार्य आयोजना), छत्तीसगढ़, अरण्य भवन, नवा रायपुर, अटल नगर के पद पर पदस्थ करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. आर. चन्द्रवंशी, अवर सचिव.

**आदिम जाति विकास विभाग, अनुसूचित जाति विकास विभाग पिछड़ा वर्ग एवं
अल्पसंख्यक विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर**

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 20 मई 2025

क्रमांक एफ 19-03/2020/25-1.—राज्य शासन एतद्वारा छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1995 यथा संशोधित 2020 की धारा 4 के अध्याय 2 की कंडिका 3 में निहित प्रावधान अनुसार प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रीमती चन्द्रकान्ति वर्मा, ग्राम-टेकारी, विकासखण्ड-धरसीवा, जिला-रायपुर को छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में उपाध्यक्ष के रिक्त पद पर मनोनीत करता है।

2. श्रीमती वर्मा पदभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य सरकार के प्रसाद पर्यंत, तक पद पर पदस्थ रहेंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, प्रमुख सचिव.

राजस्व विभाग

**कार्यालय कलेक्टर, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग**

बलरामपुर-रामानुजगंज, दिनांक 2 जुलाई 2025

क्रमांक/5286/अ-82/2022.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 12 के द्वारा | सार्वजनिक प्रयोजन |
|-------------------------|-----------|----------------------------------|----------------------------------|---|--|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | प्राधिकृत अधिकारी | का विवरण |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| बलरामपुर- रामानुजगंज | वाड्डफनगर | कोल्हुआ-कोटराही प.ह.नं. 18/30 | 0.33 | अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण उप संभाग रामानुजगंज. | कोल्हुआ कोटराही मार्ग पर इरिया नदी पर पुलिया निर्माण योजना अन्तर्गत ग्राम कोल्हुआ कोटराही |

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), वाड्डफनगर के कार्यालय में किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेन्द्र कुमार कटारा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

| कार्यालय, कलेक्टर, जिला-बिलासपुर छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग | (1) | (2) |
|---|----------------|-------|
| | 145 | 0.073 |
| | 144/28 | 0.012 |
| | 144/29 | 0.024 |
| बिलासपुर, दिनांक 23 मई 2025 | 144/20 | 0.032 |
| | 144/1 | 0.040 |
| क्रमांक 11/अ-82/2022-23/493.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :— | 152/2 | 0.085 |
| | 152/3 | 0.016 |
| | 153/2 | 0.053 |
| | 186/5, 186/6 | 0.065 |
| | 186/4 | 0.097 |
| | 184/5 | 0.053 |
| | 184/3 | 0.004 |
| | 184/4 | 0.061 |
| | 184/6 | 0.061 |
| | 177 | 0.125 |
| (1) भूमि का वर्णन— | 174/3 | 0.085 |
| (क) जिला-बिलासपुर | 174/10 | 0.061 |
| (ख) तहसील-कोटा | 525/4 | 0.020 |
| (ग) नगर/ग्राम-झिंगटपुर | 525/2 | 0.036 |
| (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.297 हेक्टेयर | 533/6 | 0.036 |
| खसरा नम्बर | 533/12 | 0.028 |
| | (हेक्टेयर में) | |
| (1) | 533/3 | 0.024 |
| | 533/11 | 0.028 |
| 2/7 | 533/16 | 0.036 |
| 107/2 | 533/2 | 0.016 |
| 121/8, 122/8 | 530/1 | 0.061 |
| 121/7, 122/7 | 530/2 | 0.040 |
| 121/4, 122/4 | 2/7 | 0.028 |
| 121/10, 122/10 | 107/1 | 0.081 |
| 123/1 | 107/2 | 0.012 |
| 123/2 | 106/8 | 0.024 |
| 134 | 106/9 | 0.028 |
| 133/1 | 106/5 | 0.024 |
| 133/2 | 106/7 | 0.024 |
| 131/3 | 109/2 | 0.024 |
| 147/1 | 109/3 | 0.012 |
| 130 | 99/9 | 0.028 |
| 131/1 | 99/1 | 0.004 |
| 147/2 | 99/15 | 0.016 |
| 128/4 | 99/17 | 0.024 |
| 146/1 | 99/6 | 0.028 |
| | | |

| (1) | (2) | कार्यालय, कलेक्टर, जिला-रायपुर छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग |
|--|----------|---|
| 99/14 | 0.032 | रायपुर, दिनांक 12 जून 2025 |
| 238/2 | 0.020 | |
| 239/3 | 0.036 | |
| 239/2 | 0.008 | |
| 87 | 0.016 | प्र. क्रमांक/3767/भू-अर्जन/202405111000285/अ-82/वर्ष 2023-24.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :— |
| 86/1 | 0.024 | |
| 299 | 0.085 | |
| 82 | 0.012 | |
| 83 | 0.024 | |
| 251 | 0.012 | |
| 252 | 0.016 | |
| 250 | 0.045 | |
| 248/1 | 0.129 | |
| 300/2 | 0.032 | |
| 302/3 | 0.028 | अनुसूची |
| 300/6 | 0.032 | (1) भूमि का वर्णन— |
| 320 | 0.016 | (क) जिला-रायपुर |
| 321 | 0.053 | (ख) तहसील-रायपुर |
| 323/1 | 0.053 | (ग) नगर/ग्राम-रायपुरखास, प.ह.नं.-62 |
| 325 | 0.057 | (घ) लगभग क्षेत्रफल-12.08 हेक्टेयर |
| 301 | 0.020 | खसरा नम्बर रकबा |
| 347/1 | 0.028 | (हेक्टेयर में) |
| 353 | 0.012 | (1) (2) |
| 352 | 0.008 | 135/10 का भाग, 12.08 |
| 351 | 0.008 | शीट नं.-05, भू-खण्ड क्र. 4/23 |
| 350 | 0.032 | |
| योग | 85 3.297 | योग 12.08 |
| (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-नवागांव व्यपवर्तन योजना मुख्य एवं माईनर नहर निर्माण हेतु. | | (2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-आमापारा से तेलघानी नाका मार्ग के चौड़ीकरण हेतु. |
| (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है. | | (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है. |
| छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव. | | छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गौरव कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव. |

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य कृषि विपणन (मण्डी) बोर्ड
“सरदार वल्लभ भाई पटेल भवन” सेक्टर-24, कयाबांधा, अटल नगर, नवा रायपुर

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 10 जून 2025

क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2025-26/2146.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2023-24/7009-7010 रायपुर, दिनांक 01-02-2024 द्वारा श्री सुकलाल भगत, अनुविभागीय अधिकारी कृषि सारंगढ़-बिलाईगढ़ को कृषि उपज मंडी समिति सारंगढ़, जिला-सारंगढ़-बिलाईगढ़ (छ.ग.) का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था।

कृषि उपज मंडी समिति सारंगढ़, जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ (छ.ग.) के भारसाधक अधिकारी श्री सुखलाल भगत, सहायक संचालक कृषि, कार्यालय उप संचालक कृषि सारंगढ़-बिलाईगढ़ (छ.ग.) दिनांक 28-02-2025 को अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने से उनके स्थान पर श्री हरीश कुमार राठौर अनुविभागीय अधिकारी (कृषि) कार्यालय उप संचालक कृषि सारंगढ़-बिलाईगढ़ (छ.ग.) को भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

अतः छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा श्री सुकलाल भगत, अनुविभागीय अधिकारी कृषि, सारंगढ़-बिलाईगढ़ के स्थान पर श्री हरीश कुमार राठौर अनुविभागीय अधिकारी (कृषि) कार्यालय उप-संचालक कृषि सारंगढ़-बिलाईगढ़ (छ.ग.) को कृषि उपज मंडी समिति सारंगढ़, जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ (छ.ग.) का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

महेन्द्र सिंह सवनी,
संचालक.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 7th May 2025

No. 389/Confdl./2025/II-3-1/2025.—The following Civil Judge Junior Division, as specified in Column no. (2) of the table below, is hereby transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) in the Revenue District mentioned in Column No. (5) and is posted in the capacity as mentioned in column No. (6) from the date she assumes charge of her office:—

TABLE

| S. No. (1) | Name & presently posted as (2) | From (3) | To (4) | Revenue District (5) | Posted as (6) |
|------------|---|----------|---------|----------------------|-----------------------------|
| 1. | Ku. Ankita Yadu, XIII Additional Judge to the Court of I Civil Judge Junior Division. | Raipur | Bagicha | Jashpur | Civil Judge Junior Division |

By order of the High Court,
K. VINOD KUJUR, Registrar General.